



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247033  
CG-DL-E-05072023-247033

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2789]

No. 2789]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2023/आषाढ़ 13, 1945

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2023/ASHADHA 13, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2023

का.आ. 2913(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि त्रिपुरा राज्य में कूप आर ओ #86 से कोनाबन जी.सी.एस तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए ओ.एन.जी.सी लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी आवश्यक है।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोगता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (3) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जब से इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी बेस कॉम्प्लेक्स, बाधारघाट, आगरतला, त्रिपुरा 799014, त्रिपुरा को लिखित रूप से आपत्ति भेज सकता है।

मौजा : देबीपूर  
तहसील : देबीपूर  
भूमि की भूमि अनुसूची:-

जिला : सिपाहिजला  
उप-संभाग : विशालगढ़

| क्र.सं. | खसरा सं० | प्लॉट सं० | भूमि का वर्ग    | एकड़ में क्षेत्रफल |
|---------|----------|-----------|-----------------|--------------------|
| 1       | 936      | 1923/p    | बागान (टिला)    | 0.11               |
| 2       | 266/1    | 1897/p    | बागान (टिला)    | 0.02               |
| 3       | 398/2    | 1904/p    | चारा (टिला)     | 0.02               |
| 4       | 398/2    | 1905/p    | बागान (टिला)    | 0.10               |
| 5       | 1448     | 1912/p    | नाल             | 0.32               |
| 6       | 183/3    | 1739/p    | नाल             | 0.02               |
| 7       | 270/1    | 1740/p    | नाल             | 0.29               |
| 8       | 270/1    | 1741/p    | नाल             | 0.07               |
| 9       | 78       | 1743/p    | नाल             | 0.02               |
| 10      | 468/1    | 1752/p    | चारा (टिला)     | 0.10               |
| 11      | 1174     | 1659/p    | नाल             | 0.12               |
| 12      | 483      | 1753/p    | नाल             | 0.08               |
| 13      | 473      | 1754/p    | नाल             | 0.02               |
| 14      | 339      | 1755/p    | नाल             | 0.04               |
| 15      | 339      | 1756/p    | नाल             | 0.07               |
| 16      | 1047     | 1759/p    | नाल             | 0.02               |
| 17      | 1239     | 1760/p    | नाल             | 0.10               |
| 18      | 1239     | 1761/p    | नाल             | 0.06               |
| 19      | 14/4     | 1829/p    | नाल             | 0.25               |
| 20      | 14/1     | 1838/p    | नाल             | 0.12               |
| 21      | 14/2     | 1770/p    | पुकुर पार (नाल) | 0.02               |
| 22      | 14/2     | 1772/p    | नाल             | 0.38               |
| 23      | 14/2     | 1830/p    | नाल             | 0.20               |
| 24      | 14/3     | 1877/p    | नाल             | 0.08               |
| 25      | 20       | 1872/p    | नाल             | 0.21               |
| 26      | 442      | 1873/p    | नाल             | 0.05               |
| 27      | 268      | 1806/p    | नाल             | 0.11               |
| 28      | 268      | 1871/p    | नाल             | 0.02               |
| 29      | 316      | 1837/p    | नाल             | 0.17               |
| 30      | 519/2    | 1835/p    | नाल             | 0.16               |
| 31      | 505      | 1812/p    | नाल             | 0.02               |
| 32      | 505      | 1814/p    | नाल             | 0.09               |
| 33      | 505      | 1813/p    | चारा (टिला)     | 0.01               |
| 34      | 71       | 1811/p    | नाल             | 0.06               |
| 35      | 290      | 1808/p    | नाल             | 0.16               |
| 36      | 6/1      | 1429/p    | रास्ता          | 0.03               |
| 37      | 6/3      | 1730/p    | नाल             | 0.02               |
| 38      | 6/3      | 1738/p    | नाल             | 0.01               |
| 39      | 6/3      | 1742/p    | नाल             | 0.02               |
| 40      | 6/5      | 1911/p    | नाल             | 0.05               |
| 41      | 662      | 1836/p    | नाल             | 0.02               |
| कुल     |          |           |                 | 3.84               |

मौजा: कोनाबन  
तहसील : देवीपूर  
भूमि की भूमि अनुसूची:-

जिला : सिपाहिजला  
उप-संभाग : विशालगढ़

| क्र.सं. | खसरा सं० | प्लॉट सं०  | भूमि का वर्ग    | एकड़ में क्षेत्रफल |
|---------|----------|------------|-----------------|--------------------|
| 1       | 215      | 12/p       | नाल             | 0.11               |
| 2       | 146      | 13/p       | नाल             | 0.27               |
| 3       | 845      | 14/p       | नाल             | 0.11               |
| 4       | 845      | 32/p       | नाल             | 0.33               |
| 5       | 845      | 87/p       | नाल             | 0.18               |
| 6       | 646      | 15/p       | नाल             | 0.11               |
| 7       | 148      | 16/p       | नाल             | 0.07               |
| 8       | 148      | 18/p       | नाल             | 0.08               |
| 9       | 482      | 7/p        | टिला            | 0.07               |
| 10      | 1099     | 17/p       | नाल             | 0.34               |
| 11      | 548      | 173/p      | टिला            | 0.04               |
| 12      | 850      | 25/p       | नाल             | 0.05               |
| 13      | 225      | 26/p       | पुकुर पार (नाल) | 0.02               |
| 14      | 225      | 27/p       | पुकुर पार (नाल) | 0.03               |
| 15      | 225      | 28/p       | पुकुर पार (नाल) | 0.10               |
| 16      | 225      | 30/p       | नाल             | 0.11               |
| 17      | 252      | 31/p       | नाल             | 0.34               |
| 18      | 505      | 102/p      | टिला            | 0.02               |
| 19      | 849      | 103/p      | नाल             | 0.41               |
| 20      | 513      | 105/p      | टिला            | 0.01               |
| 21      | 192      | 111/p      | नाल             | 0.10               |
| 22      | 365      | 112/p      | नाल             | 0.17               |
| 23      | 365      | 590/p      | नाल             | 0.28               |
| 24      | 365      | 591/p      | नाल             | 0.17               |
| 25      | 365      | 595/p      | नाल             | 0.24               |
| 26      | 272/1    | 113/p      | नाल             | 0.25               |
| 27      | 272/2    | 130/p      | नाल             | 0.16               |
| 28      | 242      | 667/p      | चारा (टिला)     | 0.10               |
| 29      | 16/1     | 118/p      | नाल             | 0.15               |
| 30      | 273/1    | 121/p      | नाल             | 0.16               |
| 31      | 273/1    | 124/p      | नाल             | 0.14               |
| 32      | 773      | 126/p      | टिला            | 0.06               |
| 33      | 1293     | 129/p      | टिला            | 0.19               |
| 34      | 1543     | 131/p      | नाल             | 0.09               |
| 35      | 1543     | 131/3424/p | नाल             | 0.13               |
| 36      | 172      | 596/p      | नाल             | 0.40               |
| 37      | 309      | 588/p      | नाल             | 0.26               |
| 38      | 520      | 586/p      | लुंगा           | 0.07               |
| 39      | 535      | 585/p      | चारा (टिला)     | 0.08               |
| 40      | 1118     | 582/p      | चारा            | 0.03               |
| 41      | 79       | 580/p      | चारा (टिला)     | 0.11               |
| 42      | 658      | 579/p      | चारा (टिला)     | 0.02               |

|     |      |       |             |      |
|-----|------|-------|-------------|------|
| 43  | 319  | 578/p | चारा (टिला) | 0.09 |
| 44  | 1/15 | 583/p | टिला        | 1.00 |
| 45  | 1/15 | 602/p | टिला        | 0.25 |
| 46  | 1/16 | 699/p | छरा         | 0.08 |
| 47  | 1/29 | 104/p | नाल         | 0.11 |
| 48  | 1/3  | 175/p | रास्ता      | 0.02 |
| कुल |      |       |             | 7.71 |

मौजा : राधानगर

जिला : सिपाहिजला

तहसील : देबीपूर

उप-संभाग : विशालगढ़

भूमि की भूमिअनुसूची:-

| क्र.सं. | खसरा सं० | प्लॉट सं० | भूमि का वर्ग | एकड़ में क्षेत्रफल |
|---------|----------|-----------|--------------|--------------------|
| 1       | 26       | 1258/p    | चारा (टिला)  | 0.22               |
| 2       | 338      | 1259/p    | चारा         | 0.08               |
| 3       | 283      | 1270/p    | लुंगा        | 0.08               |
| 4       | 256      | 1271/p    | लुंगा        | 0.02               |
| 5       | 256      | 1277/p    | लुंगा        | 0.06               |
| 6       | 256      | 1278/p    | लुंगा        | 0.02               |
| 7       | 368      | 1273/p    | टिला         | 0.50               |
| 8       | 284      | 1275/p    | लुंगा        | 0.03               |
| 9       | 42/2     | 1429/p    | टिला         | 0.04               |
| 10      | 337      | 1422/p    | टिला         | 0.20               |
| 11      | 176      | 196/p     | टिला         | 0.02               |
| 12      | 233/1    | 252/p     | नाल          | 0.11               |
| 13      | 700      | 253/p     | नाल          | 0.16               |
| 14      | 146      | 254/p     | नाल          | 0.10               |
| 15      | 4/1      | 1257/p    | टिला         | 0.70               |
| 16      | 4/1      | 1265/p    | टिला         | 0.22               |
| 17      | 4/1      | 1411/p    | टिला         | 2.25               |
| 18      | 1/35     | 1430/p    | लुंगा        | 0.22               |
| 19      | 199      | 1260/P    | चारा (टिला)  | 0.02               |
| कुल     |          |           |              | 5.05               |

[फा. सं. इएक्सपीएल-12027(11)/22/2023-इएक्सपीएल-पीएनजी (इ-47074)]

आर. के. कुरील, निदेशक

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2023

**S.O. 2913(E).**—whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from Well RO#86 to Konaban GCS a pipeline should be laid in the State of Tripura by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipelines are proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed here to;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty- one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipelines under the land to Competent Authority, ONGC Base Complex, Badharghat, Agartala, Tripura-799014.

**Mouza: Debipur**

**Tehsil : Debipur**

**Schedule of Land :-**

**District: Sepahijla**

**Sub- Division: Bishalghar**

| Sl. No.      | Khatian No. | Plot No. | Class of Land   | Area in Acre |
|--------------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| 1            | 936         | 1923/p   | Bagan (Tilla)   | 0.11         |
| 2            | 266/1       | 1897/p   | Bagan (Tilla)   | 0.02         |
| 3            | 398/2       | 1904/p   | Chara (Tilla)   | 0.02         |
| 4            | 398/2       | 1905/p   | Bagan (Tilla)   | 0.10         |
| 5            | 1448        | 1912/p   | Nal             | 0.32         |
| 6            | 183/3       | 1739/p   | Nal             | 0.02         |
| 7            | 270/1       | 1740/p   | Nal             | 0.29         |
| 8            | 270/1       | 1741/p   | Nal             | 0.07         |
| 9            | 78          | 1743/p   | Nal             | 0.02         |
| 10           | 468/1       | 1752/p   | Chara (Nal)     | 0.10         |
| 11           | 1174        | 1659/p   | Nal             | 0.12         |
| 12           | 483         | 1753/p   | Nal             | 0.08         |
| 13           | 473         | 1754/p   | Nal             | 0.02         |
| 14           | 339         | 1755/p   | Nal             | 0.04         |
| 15           | 339         | 1756/p   | Nal             | 0.07         |
| 16           | 1047        | 1759/p   | Nal             | 0.02         |
| 17           | 1239        | 1760/p   | Nal             | 0.10         |
| 18           | 1239        | 1761/p   | Nal             | 0.06         |
| 19           | 14/4        | 1829/p   | Nal             | 0.25         |
| 20           | 14/1        | 1838/p   | Nal             | 0.12         |
| 21           | 14/2        | 1770/p   | Pukur par (Nal) | 0.02         |
| 22           | 14/2        | 1772/p   | Nal             | 0.38         |
| 23           | 14/2        | 1830/p   | Nal             | 0.20         |
| 24           | 14/3        | 1877/p   | Nal             | 0.08         |
| 25           | 20          | 1872/p   | Nal             | 0.21         |
| 26           | 442         | 1873/p   | Nal             | 0.05         |
| 27           | 268         | 1806/p   | Nal             | 0.11         |
| 28           | 268         | 1871/p   | Nal             | 0.02         |
| 29           | 316         | 1837/p   | Nal             | 0.17         |
| 30           | 519/2       | 1835/p   | Nal             | 0.16         |
| 31           | 505         | 1812/p   | Nal             | 0.02         |
| 32           | 505         | 1814/p   | Nal             | 0.09         |
| 33           | 505         | 1813/p   | Chara(Tilla)    | 0.01         |
| 34           | 71          | 1811/p   | Nal             | 0.06         |
| 35           | 290         | 1808/p   | Nal             | 0.16         |
| 36           | 6/1         | 1429/p   | Rasta           | 0.03         |
| 37           | 6/3         | 1730/p   | Nal             | 0.02         |
| 38           | 6/3         | 1738/p   | Nal             | 0.01         |
| 39           | 6/3         | 1742/p   | Nal             | 0.02         |
| 40           | 6/5         | 1911/p   | Nal             | 0.05         |
| 41           | 662         | 1836/p   | Nal             | 0.02         |
| <b>TOTAL</b> |             |          |                 | <b>3.84</b>  |

**Mouza: Konaban**

**Tehsil : Debipur**

**Schedule of Land :-**

**District: Sepahijla**

**Sub- Division: Bishalghar**

| Sl. No. | Khatian No. | Plot No. | Class of Land | Area in Acre |
|---------|-------------|----------|---------------|--------------|
| 1       | 215         | 12/p     | Nal           | 0.11         |

|              |       |            |                 |             |
|--------------|-------|------------|-----------------|-------------|
| 2            | 146   | 13/p       | Nal             | 0.27        |
| 3            | 845   | 14/p       | Nal             | 0.11        |
| 4            | 845   | 32/p       | Nal             | 0.33        |
| 5            | 845   | 87/p       | Nal             | 0.18        |
| 6            | 646   | 15/p       | Nal             | 0.11        |
| 7            | 148   | 16/p       | Nal             | 0.07        |
| 8            | 148   | 18/p       | Nal             | 0.08        |
| 9            | 482   | 7/p        | Tilla           | 0.07        |
| 10           | 1099  | 17/p       | Nal             | 0.34        |
| 11           | 548   | 173/p      | Tilla           | 0.04        |
| 12           | 850   | 25/p       | Nal             | 0.05        |
| 13           | 225   | 26/p       | Pukur Par (Nal) | 0.02        |
| 14           | 225   | 27/p       | Pukur           | 0.03        |
| 15           | 225   | 28/p       | Pukur Par (Nal) | 0.10        |
| 16           | 225   | 30/p       | Nal             | 0.11        |
| 17           | 252   | 31/p       | Nal             | 0.34        |
| 18           | 505   | 102/p      | Tilla           | 0.02        |
| 19           | 849   | 103/p      | Nal             | 0.41        |
| 20           | 513   | 105/p      | Tilla           | 0.01        |
| 21           | 192   | 111/p      | Nal             | 0.10        |
| 22           | 365   | 112/p      | Nal             | 0.17        |
| 23           | 365   | 590/p      | Nal             | 0.28        |
| 24           | 365   | 591/p      | Nal             | 0.17        |
| 25           | 365   | 595/p      | Nal             | 0.24        |
| 26           | 272/1 | 113/p      | Nal             | 0.25        |
| 27           | 272/2 | 130/p      | Nal             | 0.16        |
| 28           | 242   | 667/p      | Chara (Tilla)   | 0.10        |
| 29           | 16/1  | 118/p      | Nal             | 0.15        |
| 30           | 273/1 | 121/p      | Nal             | 0.16        |
| 31           | 273/1 | 124/p      | Nal             | 0.14        |
| 32           | 773   | 126/p      | Tilla           | 0.06        |
| 33           | 1293  | 129/p      | Tilla           | 0.19        |
| 34           | 1543  | 131/p      | Nal             | 0.09        |
| 35           | 1543  | 131/3424/p | Nal             | 0.13        |
| 36           | 172   | 596/p      | Nal             | 0.40        |
| 37           | 309   | 588/p      | Nal             | 0.26        |
| 38           | 520   | 586/p      | Lunga           | 0.07        |
| 39           | 535   | 585/p      | Chara (Tilla)   | 0.08        |
| 40           | 1118  | 582/p      | Chara           | 0.03        |
| 41           | 79    | 580/p      | Chara (Tilla)   | 0.11        |
| 42           | 658   | 579/p      | Chara (Tilla)   | 0.02        |
| 43           | 319   | 578/p      | Chara (Tilla)   | 0.09        |
| 44           | 1/15  | 583/p      | Tilla           | 1.00        |
| 45           | 1/15  | 602/p      | Tilla           | 0.25        |
| 46           | 1/16  | 699/p      | Chhara          | 0.08        |
| 47           | 1/29  | 104/p      | Nal             | 0.11        |
| 48           | 1/3   | 175/p      | Rasta           | 0.02        |
| <b>TOTAL</b> |       |            |                 | <b>7.71</b> |

**Mouza: Radha Nagar**  
**Tehsil : Debipur**  
**Schedule of Land :-**

**District: Sepahijala**  
**Sub- Division: Bishalghar**

| Sl. No. | Khatian No. | Plot No. | Class of Land | Area in Acre |
|---------|-------------|----------|---------------|--------------|
| 1       | 26          | 1258/p   | Chara (Tilla) | 0.22         |
| 2       | 338         | 1259/p   | Chara         | 0.08         |
| 3       | 283         | 1270/p   | Lunga         | 0.08         |
| 4       | 256         | 1271/p   | Lunga         | 0.02         |
| 5       | 256         | 1277/p   | Lunga         | 0.06         |
| 6       | 256         | 1278/p   | Lunga         | 0.02         |

|              |       |        |               |             |
|--------------|-------|--------|---------------|-------------|
| 7            | 368   | 1273/p | Tilla         | 0.50        |
| 8            | 284   | 1275/p | Lunga         | 0.03        |
| 9            | 42/2  | 1429/p | Tilla         | 0.04        |
| 10           | 337   | 1422/p | Tilla         | 0.20        |
| 11           | 176   | 196/p  | Tilla         | 0.02        |
| 12           | 233/1 | 252/p  | Nal           | 0.11        |
| 13           | 700   | 253/p  | Nal           | 0.16        |
| 14           | 146   | 254/p  | Nal           | 0.10        |
| 15           | 4/1   | 1257/p | Tilla         | 0.70        |
| 16           | 4/1   | 1265/p | Tilla         | 0.22        |
| 17           | 4/1   | 1411/p | Tilla         | 2.25        |
| 18           | 1/35  | 1430/p | Lunga         | 0.22        |
| 19           | 199   | 1260/P | Chara (Tilla) | 0.02        |
| <b>TOTAL</b> |       |        |               | <b>5.05</b> |

[F. No. Expl-12027(11)/22/2023-EXPL-PNG (E-47074)]

R. K. KUREEL, Director